



अगाडकी आवरण पृष्ठ
दुगो मुस




लेखक: दपिन्दर पासवान
तह ६, कक्षा २
भोजपुरी




दुगो मुस रहसन। दुनु मुस भाइ रहसन। एगो मुस सहर मे रहे।
एगो मुस गाँव मे रहे।



एक दनि सहरवाला मुस साचलख। हम गाँव घुमे जाएम। सहरवाला मुस भाइ से मलि
गाँव आइल।



सहर से चलके गाँवमे आ गइल। गाँवमे आपन मुसके घरे पुगल। भाइ से पुछलख
ओकर हालचाल। गाँवके मुस कहलख ठकि बा।



गावके मुस सहरके हालचाल पुछलख। उ भी ठीक बा कहलख। गावके मुस सहरम
जाएके कहलख।




दुनु सहर गइल। सहरवाल मुस अपना सहरके बडाइ करेलागल। सहरमे नमिन रास्ता
बा। गावँके सडक छोट बा कहलख।




दुनुजने खाना खाएला चल गइल लोग। खाना देखके सहरवाला मुस उदास होगइल।
ओकरा गाँव के खाना नमिन ना लागल।




गाँवके मुसके सहरमे आवेला कहलख। तु गाँवमे खाली सादा खाना खाली। चल
तोहरा के नमिन खाना खयिएम।



आ सहरके जन्गी तोराके हम देखाएम। दुनुजने सहर चल देलख लोग। घरमे जाके
खाना खइलख लोग। आ एकदम राजा जैसन रहेनी।



जवन चाहेनी उ खानी। ओ घरमे एगो कुता भी रहे। मुसलोग खाएके बेरा कुता
आगइल। कुता मुसके पकडे चहलख। कर मुसलोग बाहर भाग गेल।



ओ घरमे एगो बलिाइ भी रहे। बलिाइ बाहर बैठल रहे। मुसके देखके बलिाइ झपटल।
मुसलोग दोसरा ओर भाग गइल। शहरवाला मुससे गाँव वाला मुस कहलख।



एकरासे नमिन त हमरे गाँव बा। कवनो डर आ भय नइखे। अच्छा पकवान से नमिन
आलु बा। हम अब यहा ना रहेम।



कमसे कम जान त सुरक्षति बा। हमरा माफ कर द ए भाइ। हमरा सादा जीन्गहि
पसन्द बा। गाँववाला मुस अपना घर आ गइल।

शीर्षक पृष्ठ

दुगो मुस

Images on pages Front Cover, १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, ११ by © 2019 The Art Of Reading 3.0, © 2009 SIL International. CC-BY-ND 3.0.

Images on pages १, १०, १२ by International Illustrations: The Art Of Reading 3.0, © 2009 SIL International. CC-BY-ND 3.0.

तहगत, तह ६

This book has been developed under the Enabling Writers Project with the support of the Curriculum Development Centre-Ministry of Education, Science and Technology Nepal, Language Commission- Government of Nepal, Rural Development Center-Nepal and World Education.

भोजपुरीNepal



<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/>तपाईंले यस रचनालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईंले यस रचनालाई समायोज गर्न वा यसमा आफ्नो तर्फबाट थपथाप गर्न पाउनुहुन्छ।

तपाईंले लेखक, चित्रकार, इत्यादिको प्रतिलिपि अधिकार सूचना र नाम राख्नुपर्छ।

Translations—If you create a translation of this work, please add the following disclaimer along with the attribution: This translation was not created by USAID and should not be considered an official USAID translation.

USAID shall not be liable for any content or error in this translation. Adaptations—If you create an adaptation of this work, please add the following disclaimer along with the attribution: This is an adaptation of an original work by USAID. Views and opinions expressed in the adaptation are the sole responsibility of the author or authors of the adaptation and are not endorsed by USAID.

अगाडको आवरण पृष्ठको भक्तिपट्टी

यस पुस्तकको बारेमा: भोजपुरी भाषामा तयार गरिएको यो पुस्तक कक्षा २ मा अध्ययनरत भाइबहनीहरूका लागि हो। यो पुस्तक देवनागरी लिपिका सबै वर्ण र मात्रा सकिसकेका बालबालिकाको स्वतन्त्र पठनका लागि तयार पारिएको हो। पढाइ सीपको विकास गर्नका लागि यस पुस्तकलाई शिक्षकले नयाँ शब्द सिकाउन, नमुना पठन गर्न र बोध शिक्षणका लागि प्रयोग गर्न सक्नेछन्।

The End



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



**Australian
Aid** 

